



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

साइरियल प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 26, मंगलवार, शाके 1941–सितम्बर 17, 2019
Bhadra 26, Tuesday, Saka 1941–September 17, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 11, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/9791 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Deoli has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Deoli. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगरपालिका देवली (टोंक) राज.
प्रफोर्मा “क”

वार्ड सं.	वार्ड की सीमा का विवरण
1	श्री नवरंग रेगर के मकान से नेकचाल रोड पर दक्षिणी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री सत्यनारायण तेजी के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलते हुए श्री सत्यनारायण तेजी के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री मेवालाल के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री बाबूलाल के मकान तक पहुंचेंगे तथा यहां से पश्चिमी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री नवरंग रेगर के मकान तक पहुंचेंगे।
2	श्री राजेश खटीक के मकान से दक्षिणी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री सरफुदीन पटवा के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से पूर्वी ओर दार्यों ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री रहुफ कम्पाउण्डर के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से दिलीप बंगाली के मकान से उत्तरी ओर दार्यों ओर की आबादी को शामिल करते हुए बालाजी मंदिर तक पहुंचेंगे, यहां से पश्चिमी ओर श्री भंवरलाल देतवाल के मकान से पश्चिमी ओर चलकर बाई

	ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री राजेश खटीक के मकान तक पहुंचेंगे।
3	श्री सुनील विश्वास के मकान से दक्षिणी ओर चलकर रामदेव मंदिर को शामिल करते हुए दक्षिणी ओर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री भगवान दास के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से पश्चिमी ओर श्री विनोद डाबोड़िया के मकान को शामिल करते हुए श्री मोती हरिजन के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से नेकचाल बालाजी रोड पर दक्षिणी ओर पूर्वी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री युनूस के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से पूर्वी ओर बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए रामअवतार जी की दुकान तक पहुंचेंगे, यहां से उत्तरी ओर बाई तरफ की आबादी को शामिल करते हुए श्री राधन बंगाली के मकान तक पहुंचेंगे तथा यहां से पश्चिमी ओर दार्यों ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री सुनील विश्वास के मकान तक पहुंचेंगे।
4	पुराना शराब ठेका से दक्षिणी ओर नेकचाल रोड पर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए बैरवा हताई तक पहुंचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर गली में श्री नरेश शर्मा के मकान को शामिल करते हुए श्री तुलसीराम के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए जगदीश जी की कोठी से मोहनलाल पण्डित जी के मकान को शामिल करते हुए पूर्वी ओर कालू खां के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए उत्तरी ओर मुड़कर बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए नगरपालिका कॉम्प्लेक्स तक पहुंचेंगे, यहां से पश्चिमी ओर चलकर बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए पुराना शराब ठेका तक पहुंचेंगे।
5	बैरवा हताई कोने से दक्षिणी ओर चलकर बार्यों ओर की आबादी को शामिल करते हुए रामनिवास नायक से बाबूलाल की दुकान तक पहुंचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बाई ओर की आबादी शामिल करते हुए लाला ग्वाला के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से उत्तरी ओर दार्यों ओर की आबादी को शामिल करते हुए बिहारी धर्मशाला तक पहुंचेंगे, यहां से उत्तरी ओर नोरत कंछल की दुकान शामिल करते हुए बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए हरदेव के मकान तक तथा सामने मनोज बैरवा के मकान से दार्यों ओर की आबादी शामिल करते हुए बैरवा हताई के कोने तक पहुंचेंगे।
6	श्री सुरजमल सुवालका के मकान से दक्षिणी ओर चलकर बार्यों ओर की आबादी को शामिल करते बालूराम कलाल के मकान को शामिल करते हुए श्री दिनेश सिंहल के मकान को शामिल करते हुए श्री अर्जुन ग्वाला के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से पूर्वी ओर बार्यों ओर की आबादी को शामिल करते उत्तरी ओर चलकर बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री ओम जी सिंहल के मकान तक पहुंचेंगे, यहा से पूर्वी ओर चलकर बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्यामलाल सत्यनारायण की दुकान तक पहुंचेंगे, यहां से उत्तरी ओर बार्यों ओर की आबादी को शामिल करते कांटिया जी की दुकान तथा यहां से पश्चिमी ओर बार्यों ओर की आबादी को शामिल करते गुर्जर मल जी का मकान शामिल करते हुए महावीर जी कपडे वाले के मकान को शामिल करते हुए सामने गली में श्री रमेश जी मेहरू वाले के मकान से बार्यों ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री सुरजमल जी सुवालका के मकान तक पहुंचेंगे।

7	श्री महावीर जैन डाबर वाले के मकान से दक्षिणी ओर चलकर बायीं ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री जाकिर भाई के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से पश्चिमी ओर मुडकर श्री मदन जी सुगन के मकान को शामिल करते हुए लक्ष्मीकान्त पारीक के मकान तक, यहां से पूर्वी ओर बायीं ओर की आबादी को शामिल करते कुन्दनमल गोयल की दुकान सब्जी मण्डी, कृषि मण्डी से पश्चिमी ओर बायीं ओर की आबादी को शामिल करते बंगाली कॉलोनी श्री गोतीलाल के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से दक्षिणी ओर चलकर अम्बेडकर सर्किल को शामिल करते हुए श्री महावीर जैन डाबर वाले के मकान तक पहुँचेंगे।
8	मोहनलाल ग्वाला के मकान से दक्षिणी ओर चलकर बायीं ओर की आबादी को शामिल करते रामेश्वर दिया के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बायीं ओर की आबादी को शामिल करते वेदप्रकाश जिन्दल के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर बायीं ओर की आबादी को शामिल करते शंकर पतासी वाले के मकान तक पहुँचेंगे तथा यहां से पश्चिमी ओर चलकर बायीं ओर की आबादी को शामिल करते मोहनलाल ग्वाला के मकान तक पहुँचेंगे।
9	श्री हरी जी कंछल के मकान से दक्षिणी ओर चलकर बायीं ओर की आबादी को शामिल करते भैंरुजी के चबुतरे तक पहुँचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बायीं ओर की आबादी को शामिल करते संजय ऐरन की दुकान तक पहुँचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर बायीं ओर की आबादी को शामिल करते हरि हलवाई की दुकान तक पहुँचेंगे तथा यहां से पश्चिमी ओर चलकर बायीं ओर की आबादी को शामिल करते श्री हरी जी कंछल के मकान तक पहुँचेंगे।
10	श्री गोरधन कंछल की दुकान के दक्षिणी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए कोली के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री त्रिलोकचन्द साहू के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर खेडा वाले के मकान को शामिल करते हुए बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए कटपीस सेन्टर तक पहुँचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए ब्रजमोहन जी के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री गणतन्त्र सिंहल के मकान तक पहुँचेंगे तथा यहां से पश्चिमी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री गोरधन कंछल की दुकान तक पहुँचेंगे।
11	श्री नवल गर्ग की दुकान से दक्षिणी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते छोटूपान वाले तक, यहां से पूर्वी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते श्री अनीस भाई की दुकान तक पहुँचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए अग्रवाल धर्मशाला के कोने तक पहुँचेंगे, यहां से पश्चिमी ओर चलकर श्री निर्मल सोनी की दुकान को शामिल करते हुए उत्तरी ओर चलकर बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री मुराद भाई के मकान तक पहुँचेंगे तथा यहां से पश्चिमी ओर बाई ओर की आबादी को शामिल करते नवल गर्ग की दुकान तक।
12	श्री सलीम भाई नल वाले के मकान से से दक्षिणी ओर चलकर बायीं ओर की आबादी को शामिल करते हुए डिडवानिया जी के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर महात्मा

	गांधी उद्यान को शामिल करते हुए श्री अमरचन्द गुप्ता की दुकान तक पहुँचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते चन्द्र ट्रेडर्स तक पहुँचेंगे, यहां से उत्तरी ओर बाई और की आबादी को शामिल करते निहाल जी के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से पश्चिमी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते जैन मन्दिर कोने से काका सरदार के मकान को शामिल करते हुए उत्तरी ओर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए किसान टाकीज तक पहुँचेंगे तथा यहां से पश्चिमी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते श्री सलीम भाई नल वाले के मकान तक पहुँचेंगे।
13	श्री रमेश गोयल के मकान के दक्षिणी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए श्री त्रिलोक साहु के खाली भूखण्ड (जहाजपुर रोड) पर पहुँचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए श्री रामेश्वर जी पण्डित अमरवासी वाले के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर गुरुद्वारा रोड पर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए श्री गणेश तेली के मकान तक पहुँचेंगे तथा यहां से पश्चिमी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए श्री रमेश गोयल के मकान तक पहुँचेंगे।
14	चारभूजा मंदिर से दक्षिणी ओर सकरी गली में चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए श्री मूलचन्द जी तिलांजू वाले के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर श्री कैलाश जी पाटनी के मकान को शामिल करते हुए यहां से दक्षिणी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए श्री फोजमल जैन के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए गुरुद्वारा के पूर्वी-दक्षिणी कोने तक पहुँचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए पुलिस थाना के पूर्वी-उत्तरी कोने तक पहुँचेंगे, यहां से पश्चिमी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए चारभूजा मंदिर तक पहुँचेंगे।
15	बगीची के बालाजी के उत्तरी-पश्चिमी कोने से दक्षिणी ओर गुरुद्वारा रोड पर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए डॉ. मांगीलाल मीणा के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए श्री रमेशचन्द बिलाला के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए गौशाला रोड पर जोधपुर मिष्ठान भण्डार तक पहुँचेंगे तथा यहां से पश्चिमी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए बगीची के बालाजी तक पहुँचेंगे।
16	राजकीय आदर्श उ.प्रा.विद्यालय के उत्तरी-पश्चिमी कोने से दक्षिणी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए जलदाय विभाग को शामिल करते हुए द्वारका होटल तक पहुँचेंगे, यहां से दक्षिणी ओर चलकर बांयी और की आबादी को शामिल करते हुए कालु जी सैन के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से पूर्वी ओर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए राजकीय उ. माध्यमिक विद्यालय के पूर्वी-दक्षिणी कोने तक, यहां से उत्तरी ओर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए सुलभ कॉम्प्लेक्स के कोने तक, यहां से पश्चिमी ओर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए राजकीय आदर्श उ.प्रा.विद्यालय के के उत्तरी-पश्चिमी कोने तक पहुँचेंगे।
17	मनोहर जी के मकान से दक्षिणी ओर चलकर बायी और की आबादी को शामिल करते हुए हक्मचन्द सेठी के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से पूर्वी ओर बाई और की आबादी को शामिल

	<p>करते हुए राजेन्द्र बागड़ी के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से सामने तहसील दीवार के सहारे चलते हुए बाई और की आबादी को शामिल करते हुए तहसील कोने को शामिल करते हुए बस स्टेप्ड के अन्दर प्रवेश करेंगे, यहां से दक्षिणी ओर गौशाला रोड पर चलते हुए बस स्टेप्ड के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक पहुंचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए शर्मा डेयरी तक पहुंचेंगे, यहां से दार्यों ओर की आबादी को शामिल करते हुए उत्तरी ओर बस स्टेप्ड द्वारा पर पंचोली भवन को शामिल करते हुए सामने गोविन्द स्वीट्स की दुकान शामिल करते हुए पूर्वी ओर चलकर श्री कैलाश मीणा की दुकान तक, यहां से उत्तरी ओर बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए बसन्तीलाल टांक की आरामशीन तक पहुंचेंगे, यहां से पश्चिमी ओर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए मंगल टेडर्स, वेद प्रकाश जिन्दल के खाली भूखण्ड को शामिल करते हुए मनोहर जी के मकान तक पहुंचेंगे</p>
18	<p>चर्च रोड पर लोटस स्कूल से दक्षिणी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए काबरा जी के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए विनोद वर्मा के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से दक्षिणी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए काले हत्थे के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक पहुंचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए डॉ. मोहनलाल के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से उत्तरी ओर दार्यों ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री नेमीचन्द जैन के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से पश्चिमी ओर चर्च रोड पर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए सिद्धार्थ कम्प्यूटर से बांयी ओर की आबादी शामिल करते हुए लोटस स्कूल तक पहुंचेंगे।</p>
19	<p>श्री बाबूलाल अग्रवाल के मकान से दक्षिणी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए जैन मन्दिर से बाई और की आबादी को शामिल करते हुए धाकड़ बोरिंग तक पहुंचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए बोम्बे डाईंग तक पहुंचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए जैन मेडिकल तक पहुंचेंगे, यहां से पश्चिमी ओर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए श्री बाबूलाल अग्रवाल के मकान तक।</p>
20	<p>टेलीफोन एक्सचेंज के दक्षिणी ओर सी.आई.एस.एफ. लिंक रोड पर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए पीर बाबा तक पहुंचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए किशनराम मोहनलाल के पेट्रोल पम्प तक पहुंचेंगे, यहां से उत्तरी ओर बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए पंचायत समिति के उत्तरी-पूर्वी कोने तक पहुंचेंगे, यहां से पश्चिमी ओर चलकर पंचायत समिति के पश्चिमी-उत्तरी कोने को शामिल करते हुए श्री महेन्द्र जैन कालेडा वाले के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से पश्चिमी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए टेलीफोन एक्सचेंज तक पहुंचेंगे।</p>
21	<p>चर्च रोड पर दूध डेयरी से दक्षिणी ओर दार्यों ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री गुमान सिंह के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से पूर्वी ओर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए श्री महावीर जैन की दुकान तक पहुंचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर बाई और की आबादी को शामिल करते हुए श्री मानसिंह मीणा के मकान तक पहुंचेंगे, यहां से पश्चिमी</p>

	ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए चर्च रोड पर दूध डेयरी तक पहुँचेंगे।
22	भरतपुर हाऊस के उत्तरी-पश्चिमी कोने से दक्षिणी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए खेराती पुलिया तक पहुँचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए नेवरबाग बालाजी तक पहुँचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री चतुर्भज बलाई के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से पश्चिमी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री राजेश टांक की दुकान तक पहुँचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए शीतला माता के मंदिर तक पहुँचेंगे, यहां से पश्चिमी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए भरतपुर हाऊस के कोने तक पहुँचेंगे।
23	श्री मुरारी टायर वाले के मकान से दक्षिणी ओर चलकर बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए मदन सिंह के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री टीकम चन्द सैन के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए नवाब खां के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से पश्चिमी ओर चलकर दार्यों ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री मुरारी टायर वाले के मकान तक पहुँचेंगे।
24	पुराना बजाज शोरूम से दक्षिणी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री राजेश मीणा के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से पूर्वी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए नगरपालिका खाली प्लाट तक पहुँचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर बाई ओर की आबादी को शामिल करते हुए कोटा रोड पर श्री आरीफ पुत्र श्री गफुर खां के खाली प्लाट तक पहुँचेंगे, कोटा चुंगी नाका से पश्चिमी ओर चलकर दार्यों ओर की आबादी को शामिल करते हुए बीसलपुर परियोजना कार्यालय के पीछे स्थित आबादी को शामिल करते हुए पुराना बजाज शोरूम तक पहुँचेंगे।
25	नगरपालिका सीमा चिन्ह पिलर नं. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 तक पहुँचेंगे। फिर यहां से पूर्वी की ओर रवाना होकर सड़क के सहारे-सहारे सी.आई.एस.एफ. बाउण्ड्रीवाल तक श्री नन्दा धोबी के मकान को बाहर छोड़कर बाउण्ड्रीवाल के सहारे-सहारे मुड़ते हुए दक्षिणी ओर रवाना होकर बंगाली क्वार्टर्स नं. 1 के पीछे तक पहुँचेंगे यहां से सी.आई.एस.एफ.गेट नं. 2 तक पहुँचेंगे। फिर यहां से पूर्व की ओर रवाना होकर चर्च रोड पर बाउण्ड्रीवाल के सहारे-सहारे मुख्य गेट तक पहुँचेंगे तथा सी.आई.एस.एफ. की बाउण्ड्री के अन्दर बायें ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए फिर मेनगेट से पूर्वी ओर बाउण्ड्री के सहारे-सहारे रवाना होकर जयपुर रोड एन.एच.-12 पर पहुँचेंगे, यहां से दक्षिणी ओर सोयल की दुकान को शामिल करते हुए पश्चिमी ओर आश्रय स्थल तक पहुँचेंगे, दक्षिणी ओर चलकर बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए श्री जितेन्द्र चौधरी के मकान तक पहुँचेंगे, यहां से पूर्वी ओर बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए यमोकार हॉस्पीटल तक पहुँचेंगे, यहां से सामने राजकीय महाविद्यालय, राजकीय चिकित्सालय, डाकघर, डाक बंगला शामिल करते हुए दक्षिणी ओर महाराणा प्रताप चौराहा स्थित मेहन्दी वाले बाबा की मजार को शामिल करते हुए सम्पूर्ण राजपूत कॉलोनी की आबादी शामिल

करेंगे। श्री छोटू खां चक्की वाले के मकान से उत्तरी ओर चलकर बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुए हाईवे सर्विस स्टेशन तक पहुँचेंगे, यहां से उत्तरी ओर चलकर बिसलपुर परियोजना कार्यालय, जयपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय से पूर्वी ओर पिलर नं. 38 कोटा चुंगी नाका तक पहुंचकर यहां से पिलर नं. 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30 तक पहुंचकर यहां से पश्चिमी ओर पिलर नं. 25 बिसलपुर कॉलोनी के मेन गेट तक पहुंचेंगे। यहां से चलते हुए बाये ओर की आबादी शामिल करेंगे और उत्तर की ओर रवाना होकर पुराना अजमेर रोड स्थित केन्द्रीय विद्यालय, गाडिया लोहार परिवार को शामिल करते हुए सीमा चिन्ह 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17ए, 17 तक वापस पहुंचेंगे तथा समस्त बाये ओर की आबादी को शामिल करेंगे।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका देवली

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।